



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 3—नवम्बर 9, 2012 (कार्तिक 12, 1934)

No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 3—NOVEMBER 9, 2012 (KARTIKA 12, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

## [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by  
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

सेना शाखा

नई दिल्ली, दिनांक 3 नवम्बर 2012

सं. 454, दिनांक 5 अक्टूबर 2012—राष्ट्रपति, यथासंशोधित थल  
सेना अनुदेश 75/78 के अधीन 5 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति  
करते हैं :—

(वित्त प्रभाग)

नियमित सेना

सं. 453, दिनांक 5 अक्टूबर 2012—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय  
सेवा के अधिकारी अमरजीत सिंह को रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में  
दिनांक 31 जुलाई 2012 के पूर्वाह्न से अगले आदेश जारी होने तक, एक  
वर्ष की अवधि के लिए तदर्थ आधार पर उप वित्तीय सलाहकार (उप  
सचिव) के रूप में नियुक्त करते हैं।

अल्पकालीन कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा)

कप्तान के पद पर (परखाधीन)

राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी के वी कृष्ण कुमार  
को रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में दिनांक 31 जुलाई 2012 के पूर्वाह्न से  
अगले आदेश जारी होने तक, एक वर्ष की अवधि के लिए तदर्थ आधार  
पर उप वित्तीय सलाहकार (उप सचिव) के रूप में नियुक्त करते हैं।

कप्तान खन्ना विरज विजय (एमएस-16808पी), एएमसी, 26 सितम्बर  
2011

कप्तान मनुज जैन (एमएस-16813ए), एएमसी, 27 सितम्बर 2011

कप्तान अमन दीप सिंह रन्धावा (एमएस-16816एन), एएमसी,  
27 सितम्बर 2011

रवि कत्याल  
सहायक वित्तीय सलाहकार (स्थापना)

कप्तान इकराज सिंह (एमएस-16817डब्ल्यू), एएमसी, 27 सितम्बर  
2011

कप्तान गगनदीप मलिक (एमएस-16822एफ), एएमसी, 27 सितम्बर 2011

कप्तान नीरज सिंह (एमएस-16823के), एएमसी, 27 सितम्बर 2011

कप्तान वैशाली गुप्ता (एमएस-16826एक्स), एएमसी, 27 सितम्बर 2011

कप्तान गजला मोहम्मद उसमान शेख (एमएस-16827ए), एएमसी, 27 सितम्बर 2011

कप्तान अरोमा घोत्रा (एमएस-16831एच), एएमसी, 27 सितम्बर 2011

कप्तान रूपाली बोस (एमएस-16835वाई), एएमसी, 27 सितम्बर 2011

कप्तान गुरजोत सिंह (एमएस-16841एम), एएमसी, 27 सितम्बर 2011

कप्तान बिपुल कुमार सिंह (एमएस-16842पी), एएमसी, 27 सितम्बर 2011

कप्तान कल्पना जैन (एमएस-16846एल), एएमसी, 28 सितम्बर 2011

कप्तान दत्ता श्रावणी उत्पल (एमएस-16847एन), एएमसी, 29 सितम्बर 2011

कप्तान अनिल कुमार (एमएस-16849वाई), एएमसी, 29 सितम्बर 2011

कप्तान सिक्संकरी एम (एमएस-16850एन), एएमसी, 29 सितम्बर 2011

कप्तान पंकज वत्स (एमएस-16851डब्ल्यू), एएमसी, 29 सितम्बर 2011

कप्तान अर्जुन जोशी (एमएस-16863एल), एएमसी, 21 अक्टूबर 2011

कप्तान मुरुगेश ए (एमएस-16870एफ), एएमसी, 22 नवम्बर 2011

कप्तान मनोज कुमार (एमएस-16878एन), एएमसी, 01 दिसम्बर 2011

कप्तान पवन डी वि (एमएस-16133ए), एएमसी, 28 जुलाई 2009

कप्तान वारियर रचना श्रीलता (एमएस-16112के), एएमसी, 28 जुलाई 2009

कप्तान मुकदम अलि (एमएस-16293ए), एएमसी, 18 अगस्त 2009

कप्तान संदीप बी डौला (एमएस-16340एम), एएमसी, 11 अगस्त 2009

कप्तान सचिन मग्गो (एमएस-16598ए), एएमसी, 15 जून 2010

कप्तान शिल्पा सिन्हा (एमएस-16119एन), एएमसी, 28 जुलाई 2009

कप्तान मोसीन मुनीर (एमएस-16620ए), आयोग की तिथि 15 जून 2010 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 2009 से दी जाएगी

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

कप्तान शेक शफी राजा (एमएस-16323एम), आयोग की तिथि 31 जुलाई 2009 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 31 जनवरी 2009 से दी जाएगी

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

कप्तान एम जियाउर रहमान हिफजूर रहमान (एमएस-16649एच), आयोग की तिथि 15 जून 2010 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 2009 से दी जाएगी

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

कप्तान मनु कुमार तिवारी (एमएस-15866एम), आयोग की तिथि 12 अगस्त 2008 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 12 फरवरी 2008 से दी जाएगी

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

कप्तान मनोज रामकृष्ण काशीद (एमएस-16761पी), आयोग की तिथि 11 दिसम्बर 2010 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 11 दिसम्बर 2007 से दी जाएगी

[इसमें स्नातकोत्तर योग्यता मास्टर ऑफ सर्जरी (अस्थिव्यग चिकित्सा) के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी]

फ्ला लेफ्ट के पद पर (परख पर)

फ्ला लेफ्ट स्मिता रानी बोरगोहड़न (एमएस-16416एफ) (एएफ-30715एच), आयोग की तिथि 31 दिसम्बर 2009 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 30 जून 2009 से दी जाएगी

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

फ्ला लेफ्ट सुरज गिरी (एमएस-16613के) (एएफ-31091आर), आयोग की तिथि 15 जून 2010 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 2009 से दी जाएगी

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

फला लेफ्टि आभा खुराना (एमएस-16380एन), आयोग की तिथि 30 दिसम्बर 2009 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 30 दिसम्बर 2006 से दी जाएगी

[इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डी एन बी (प्रसव एवं प्रसूति) के लिए 36 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी]

फला लेफ्टि मनजीतपाल सिंह (एमएस-16308एक्स) (एफ-30368एस), एएमसी, 27 जुलाई 2009

फला लेफ्टि वरुण कुमार चौधरी (एमएस-16574डब्ल्यू) (एफ-30376आर), एएमसी, 10 अगस्त 2009

फला लेफ्टि राहुल कुमार (एमएस-16002पी), एएमसी, 26 फरवरी 2009

फला लेफ्टि स्वाती श्रीवास्तव (एमएस-16805एफ) (एफ-31084ए), एएमसी, 15 जून 2010

फला लेफ्टि जुही अरोड़ा (एमएस-16873पी) (एफ-32058एच), एएमसी, 22 नवम्बर 2011

फला लेफ्टि हरि प्रसात एम (एमएस-16825पी) (एफ-32049जी), एएमसी, 27 सितम्बर 2011

फला लेफ्टि सनी तौमर (एमएस-16836एफ) (एफ-32052जी), एएमसी, 27 सितम्बर 2011

फला लेफ्टि अमनदीप सिंह (एमएस-16262ए) (एफ-30702एल), एएमसी, 21 अगस्त 2009

फला लेफ्टि प्रदीप ए (एमएस-16829एल) (एफ-32050टी), एएमसी, 27 सितम्बर 2011

फला लेफ्टि रोहन राजन (एमएस-16888एक्स) (एफ-32061एच), एएमसी, 17 जनवरी 2012

फला लेफ्टि एबिन स्यान्ति (एमएस-16832एल) (एफ-32051बी), एएमसी, 27 सितम्बर 2011

फला लेफ्टि सपना रैना (एमएस-16858ए) (एफ-32056ए), एएमसी, 21 अक्टूबर 2011

सर्जन लेफ्टि/कप्तान के पद पर (परख पर)

सर्जन लेफ्टि हरीश चन्द्र (एमएस-16295एल), आयोग की तिथि 20 अगस्त, 2009 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 20 फरवरी 2009 से दी जाएगी

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

सर्जन लेफ्टि सतीश अंटण ए (एमएस-16892ए), एएमसी, 17 जनवरी 2012

सर्जन लेफ्टि चिलका राजेश (एमएस-16392एच) (76056बी), एएमसी, 30 दिसम्बर 2009

सर्जन लेफ्टि उज्ज्वा मुल्ला (एमएस-16812एक्स), एएमसी, 27 सितम्बर 2011

सर्जन लेफ्टि पार्वती पी (एमएस-16815एल), एएमसी, 27 सितम्बर 2011

सर्जन लेफ्टि निखील कुमार मेस्ता (एमएस-16818वाई), एएमसी, 27 सितम्बर 2011

सर्जन लेफ्टि सनसम उषाकिरण सिंह (एमएस-16824एम), एएमसी, 27 सितम्बर 2011

सर्जन लेफ्टि ज़ारा वाणी (एमएस-16834डब्ल्यू), एएमसी, 27 सितम्बर 2011

सर्जन लेफ्टि प्रतिभा चन्द्रा (एमएस-16840के), एएमसी, 27 सितम्बर 2011

सर्जन लेफ्टि रिषेन्द्र सिंह सिसोदिया (एमएस-16848डब्ल्यू), एएमसी, 29 सितम्बर 2011

सर्जन लेफ्टि हलनोर मंगेश मच्छिंद्र (एमएस-16853एफ), एएमसी, 29 सितम्बर 2011

सर्जन लेफ्टि रागी जसविंदरपाल सिंह (एमएस-16860एक्स), एएमसी, 21 अक्टूबर 2011

सर्जन लेफ्टि अंकुर जोशी (एमएस-16864एन), एएमसी, 17 नवम्बर 2011

सर्जन लेफ्टि मयंक दुआ (एमएस-16867एफ), एएमसी, 22 नवम्बर 2011

सर्जन लेफ्टि अंकित कक्कड (एमएस-16877एल), एएमसी, 22 नवम्बर 2011

सर्जन लेफ्टि बिस्मिता महाराणा (एमएस-16113एम), एएमसी, 28 जुलाई 2009

सर्जन लेफ्टि अरूण नारायणन (एमएस-16837के), एएमसी, 27 सितम्बर 2011

सर्जन लेफ्टि रविन्द्र भुइया (एमएस-16845एच), एएमसी, 28 सितम्बर 2011

सर्जन लेफ्टि काशिविश्वनाथन एम (एमएस-16856पी), एएमसी, 21 अक्टूबर 2011

सर्जन लेफ्टि अर्चना चौहान (एमएस-16868के), एएमसी, 22 नवम्बर 2011

सर्जन लेफ्टि पवार मोहनिश रमेश (एमएस-16882डब्ल्यू), एएमसी, 17 जनवरी 2012

सर्जन लेफ्टि यादव नवीन कुमार मुरलीधर (एमएस-16886एम), एएमसी, 17 जनवरी 2012

राष्ट्रपति महोदय यथासंशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन 7 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेना  
अल्पकालीन कमीशन  
(सेना चिकित्सा सेवा)

लेफ्टि के पद पर (परख पर)

लेफ्टि शशांक कुमार सिंह (एमएस-16783एन), एएमसी, 18 मार्च 2011

लेफ्टि सत्यजित मिश्रा (एमएस-16781एच), एएमसी, 18 मार्च 2011

लेफ्टि निषा आर (एमएस-16785वाई), एएमसी, 18 मार्च 2011

लेफ्टि रत्न कुमार सदानगी (एमएस-16790के), एएमसी, 18 मार्च 2011

लेफ्टि बिष्णू राज (एमएस-16789पी), एएमसी, 18 मार्च 2011

लेफ्टि अंकुर गर्ग (एमएस-16791एम), एएमसी, 18 मार्च 2011

सर्जन सब लेफ्टि के पद पर (परख पर)

सर्जन सब लेफ्टि जी एस आर किशोर कुमार (एमएस-16775पी/76102एच), एएमसी, 18 मार्च 2011

यश पांडे

ब्रिगे

उप महानिदेशक ससेचिसे (मा सं)

-----  
(सेना शाखा)

सं. 455, दिनांक 8 अक्टूबर 2012--राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेना  
विशेष आयोग

निम्नलिखित 22 जैण्टलमैन कैंडिडेट्स (एस/810, एससी-00674एक्स अमित कुमार, आर्टी को छोड़कर) को सेना अनुदेश 5/97 के अन्तर्गत संलिखित सेना सेवा में 10 दिसम्बर 2011 (पूर्वाह्न) से लेफ्टिनेंट के पद पर विशेष आयोग प्रदान किया जाता है। एस/810, एस सी-00674एक्स अमित कुमार, आर्टी जो कमीशनिंग के समय एल एम सी था तथा शेष-1 हो जाने के बाद उन्हें सेना अनुदेश 5/97 के अन्तर्गत संलिखित सेना सेवा में 23 अप्रैल 2012 (पूर्वाह्न) से लेफ्टिनेंट के पद पर विशेष आयोग प्रदान किया जाता है :--

एस/808, 5849893वाई, इन्फैन्ट्री, विशाल क्षेत्री, 00653एफ, एओसी  
एस/796, 4274372एच, इन्फैन्ट्री, अरुण कुमार पाण्डेय, 00654के, इन्फैन्ट्री

एस/798, 9513548ए, आईसी, अशोक कुमार दुहन, 00655एम, आर्टी

एस/812, जेसी-377481डब्ल्यू, सिग्नल्स, कृष्ण गोपाल शर्मा, 00656पी, एससी

एस/809, जेसी-299761पी, एएडी, उष्णिक्कृष्णन ए, 00657एक्स, एएडी

एस/793, 13762748डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री, दिनेश कुमार, 00658ए, इन्फैन्ट्री

एस/806, 14841587डब्ल्यू, एससी, प्रदीप त्यागी, 00659एच, इन्फैन्ट्री

एस/799, 15695465एम, सिग्नल्स, सौमित्र माईति, 00660एक्स, एससी

एस/811, 15480359एम, एससी, भद्रय्या जी, 00661ए, इन्फैन्ट्री

एस/787, जेसी-764891एफ, ईएमई, ससिकुमार एम, 00662एच, एससी

एस/807, 5249643ए, इन्फैन्ट्री, नवनीत गुरुंग, 00663एल, आर्टी

एस/801, 6394527पी, एससी, उमेश पांडेय, 00664एन, एससी

एस/803, 4081810वाई, इन्फैन्ट्री, शशि भूषण, 00665डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री

एस/804, 5456456एन, इन्फैन्ट्री, कुन्दन थापा, 00666वाई, इन्फैन्ट्री

एस/797, 9513171एफ, आईसी, राजेश कुमार, 00667एफ, आर्टी

एस/805, 6942944के, एओसी, निशांत कुमार, 00668के, एओसी

एस/792, 15774338वाई, एएडी, केशवन वी एम, 00669एम, एससी

एस/800, 15779011के, एएडी, कुलकर्णी सोमनाथ प्रभाकर, 00670एफ, आर्टी

एस/802, 5047910एम, इन्फैन्ट्री, जीवन कुमार बुढ़ा, 00671के, इन्फैन्ट्री

एस/795, 14846289के, एससी, अमित कुमार, 00672एम, इन्फैन्ट्री

एस/794, 15321634पी, इंजीनियर्स, पी लोगानाथन, 00673पी, इंजीनियर्स

एस/810, 15121280एन, आर्टी, अमित कुमार, 00674एक्स, आर्टी

राहुल सांगवान

ले कर्नल

ए एम एस 8 बी

-----  
(सेना शाखा)

सं. 456, दिनांक 8 अक्टूबर 2012--राष्ट्रपति, थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियाँ करते हैं :--

नियमित सेना  
स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी को उनके 03 मार्च 2011 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर मेजर के रैंक में 03 मार्च 2011 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :--

एसएस-39112डब्ल्यू, आईसी-65301एक्स, अमित मेहता, एसी

उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :--

वेतन वृद्धि के लिये तारीख - 03 मार्च 2001

पदोन्नति के लिये तारीख - 03 नवम्बर 2002

(इस बैच के अधिकारियों को जिन्हें 5 वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया था उनकी तुलना में 12 महीने वरिष्ठता कम करने के बाद)

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारी जिन्हें सेवा के दसवें वर्ष में स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है तथा जिन्हें सेवा के आठवें वर्ष में स्थाई कमीशन प्रदान किया गया उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी को उनके 23 नवम्बर 2009 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर लेफ्टि के रैंक में 23 नवम्बर 2009 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है:--

एसएस-38902वाई, आईसी-65291वाई, अनुपम चौरे, जैग

उपरोक्त अधिकारी की स्थाई कमीशन में निम्नलिखित तारीख होगी :--

वेतन वृद्धि के लिये तारीख - 03 मार्च 2001

पदोन्नति के लिये तारीख - 03 नवम्बर 2002

(इस बैच के अधिकारियों को जिन्हें 5 वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया था उनकी तुलना में 12 महीने वरिष्ठता कम करने के बाद)

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारी जिन्हें सेवा के आठवें वर्ष में स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी को उनके 06 सितम्बर 2008 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर लेफ्टि के रैंक में 06 सितम्बर 2008 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है:--

एसएस-40387डब्ल्यू, आईसी-65977ए, राजेश माधवानी, इफै

उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :--

वेतन वृद्धि के लिये तारीख - 06 सितम्बर 2003

पदोन्नति के लिये तारीख - 06 मई 2004

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारी जिन्हें सेवा के पांच वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है

जितेन्द्र ओहरी

कर्नल

कर्नल सेना सचिव 7

थल सेना शाखा

सं. 457, दिनांक 9 अक्टूबर 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा कोर)

ए वी एम से एयर मार्शल (व समकक्ष) के पद पर

ए के बहल, एवीएसएम (एमआर-03599के) (ए एफ 14446ए)--13 अप्रैल 2012, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 अप्रैल 2012 से दी जाती है

एस कुमारवेलू

मेजर जनरल

अपर महा ससेचिसे (मासं)

-----

सं. 458, दिनांक 9 अक्टूबर 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित एमएनएस अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी तिथियों से पदोन्नति प्रदान करते हैं:--

नियमित सेना

मिलिट्री नर्सिंग सेवा

स्थायी कमीशन

ब्रिगे से मेजर जनरल

मेजर जनरल एच जे भुल्लर (एनआर-15556एफ), 01 मई 2012

कर्नल से ब्रिगे

ब्रि लुईस दहल (एनआर-16354एम), 02 अप्रैल 2012

ले कर्नल (सेलेक्ट) से कर्नल

कर्नल परिणीता खन्ना (एनआर-17065के), 01 दिसम्बर 2011

कर्नल गीता कुमारी (एनआर-17381एच), 02 जनवरी 2012

कर्नल सावित्रीअम्मा के (एनआर-17402एन), 02 अप्रैल 2012

ले कर्नल (टीएस) से ले कर्नल (सेलेक्ट)

ले कर्नल सुषमा जी (एनआर-18121के), 09 जनवरी 2012

ले कर्नल नीलम शर्मा (एनआर-18061ए), 17 अगस्त 2011

कैप्टन से मेजर

मेजर रेनू वर्गिस (एनआर-20385के), 26 सितम्बर 2008

[कमीशन तिथि :--06 सितम्बर 1996, 20 दिन (04 सितम्बर 2004 से 23 सितम्बर 2004 तक) के असाधारण अवकाश (बिना वेतनमान व भत्ते के) की अनुमति प्रदान की गई]

जे के ग्रेवाल

मेजर जनरल

अतिरिक्त महानिदेशक

(एमएनएस)

## सेना शाखा

सं. 459, दिनांक 10 अक्टूबर 2012--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

## नियमित सेना

## स्थायी आयोग

ले कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में (समय-मान द्वारा)

- (आईसी-41421एक्स) एस के सूद, एएडी, 18 जून 2009  
 (आईसी-41800एन) वी के गोइन्दी, एएससी, 17 दिसम्बर 2009  
 (आईसी-41832डब्ल्यू) जयपाल रामपाल, आईसी, 17 दिसम्बर 2009  
 (आईसी-43122एक्स) एन एल करिया, इन्फैन्ट्री, 08 जून 2011  
 (आईसी-43290डब्ल्यू) मोनिश गौर, एओसी, 14 दिसम्बर 2011  
 (आईसी-43535एफ) सुमेश गुप्ता, इंजीनियर्स, 14 दिसम्बर 2011  
 (आईसी-43649एम) के के घोष, आईसी, 14 दिसम्बर 2011  
 (आईसी-45502पी) पी एस गिरीवाल, एएससी, 07 नवम्बर 2011  
 (आईसी-45523एल) फ्रानांडीस आर जोन, इन्फैन्ट्री, 22 अप्रैल 2012  
 (आईसी-45553एच) के एस बजवा, सिग्नल्स, 22 अप्रैल 2012  
 (वी-00422एल) पी के सिंह, आरवीसी, 16 मई 2012  
 (वी-00423एन) वी एन गुप्ता, आरवीसी, 16 मई 2012  
 (आईसी-42417एफ) टी के चटर्जी, इन्ट, 15 दिसम्बर 2010

टी के दास  
 उप निदेशक  
 एम एस-8ए

## सेना शाखा

सं. 460, दिनांक 10 अक्टूबर 2012--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

## प्रादेशिक सेना

## प्रादेशिक कमीशन

ले कर्नल के रैंक में

- मेजर राजेश नायक (टीए-42530), इन्फैन्ट्री, 23 अप्रैल 2012  
 मेजर संजय डबास (टीए-42345), इन्फैन्ट्री, 07 मई 2012

बृज कुमार  
 उप सचिव

## सेना शाखा

सं. 461, दिनांक 11 अक्टूबर 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित एएमसी/एसएससी अधिकारियों की उनके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं :--

## नियमित सेना

## अल्पकालिक सेवा कमीशन

## सेना चिकित्सा सेवा

मेजर से ले कर्नल के पद पर

- मेजर अदितो दुसाज (एमएस-14751एम), 17 फरवरी 2012  
 मेजर सीन जौब (एमएस-14063एन), 05 जुलाई 2011  
 मेजर संजय कुमार श्रीवास्तव (एमएस-14105पी), 08 सितम्बर 2011  
 मेजर यस्मिन अन्सारी (एमएस-14204एक्स), 05 अगस्त 2011  
 मेजर त्रिलोकेशवर मंहतो (एमएस-14696एफ), 09 दिसम्बर 2011  
 मेजर रेनु शर्मा (एमएस-13877ए), 23 अगस्त 2010  
 मेजर राजीव कुमार त्रिपाठी (एमएस-14229के), 12 मार्च 2012  
 मेजर प्रदीप मिश्रा (एमएस-16150ए), 08 मार्च 2012  
 मेजर श्रीधर के (एमएस-14644एल), 10 फरवरी 2012  
 मेजर राजीव के (एमएस-14198पी), 24 जनवरी 2012  
 मेजर नीरज कपूर (एमएस-14207एल), 06 फरवरी 2012

सर्जन ले से सर्जन ले कमाण्डर के पद पर

- सर्जन ले आशीष कुमार वशिष्ठ (एमएस-15815वाई)(75974टी), 25 अप्रैल 2012  
 सर्जन ले मनोज जोर्ज वर्गीस (एमएस-15881एफ)(75984आर), 12 फरवरी 2012

कैप्टन से मेजर के पद पर

- कैप्टन गौरव कुमार भंगोत्रा (एमएस-15649डब्ल्यू), 15 नवम्बर 2011  
 कैप्टन सुशील कुमार (एमएस-15731एल), 25 अक्टूबर 2011  
 कैप्टन भुपेन्द्र यादव (एमएस-15771एम), 25 अक्टूबर 2011  
 कैप्टन मयंक दीक्षित (एमएस-15777एन), 25 अक्टूबर 2011  
 कैप्टन लक्ष्मी पी के (एमएस-15502ए), 06 फरवरी 2012  
 कैप्टन निहारीका बिष्ट (एमएस-15508एफ), 06 फरवरी 2012  
 कैप्टन रहमानी सुम्बुल खान (एमएस-15533ए), 06 फरवरी 2012  
 कैप्टन सुनिल कुमार (एमएस-15542एफ), 06 फरवरी 2012  
 कैप्टन सुदीप आजाद (एमएस-15546एक्स), 14 फरवरी 2012

कैप्टन प्रितेश सहानी (एमएस-15861एन), 12 फरवरी 2012  
 कैप्टन छवि अरोरा (एमएस-15509के), 06 फरवरी 2012  
 कैप्टन कन्हैयालाल पतिथर (एमएस-15522एन), 06 फरवरी 2012  
 कैप्टन बिरिन्दर सिंह गिल (एमएस-15536एन), 07 फरवरी 2012  
 कैप्टन निलभ कुमार सिंह (एमएस-15540डब्ल्यू), 06 फरवरी 2012  
 कैप्टन अभिनव असवाल (एमएस-15541वाई), 06 फरवरी 2012  
 कैप्टन रोहन जे (एमएस-15834के), 22 नवम्बर 2011  
 कैप्टन जगमीत सिंह अरोडा (एमएस-15037वाई), 12 अप्रैल 2009  
 कैप्टन कुलकर्णी अस्मिता महादेव (एमएस-15596एच), 06 सितम्बर 2011  
 कैप्टन अंशुल भिंडे (एमएस-15800डब्ल्यू), 25 अक्टूबर 2011  
 कैप्टन लिमजोय चारा (एमएस-15872ए), 12 फरवरी 2012  
 कैप्टन रोमिल सेठ (एमएस-15896के), 12 फरवरी 2012  
 कैप्टन शुभ्रोज्ज्वल साहा (एमएस-15909डब्ल्यू), 12 फरवरी 2012  
 कैप्टन सौरभ महेश गुप्ता (एमएस-16391ए), 30 दिसम्बर 2011  
 कैप्टन मुहम्मद अब्बास जाफरी (एमएस-16456एच), 07 जनवरी 2012

कैप्टन प्रमोद महेन्द्र (एमएस-16693एम), 16 जून 2011

#### स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा सेवा (गैर तकनीकी)

कप्तान से मेजर के पद पर

मेजर ओमप्रकाश बिसनोई (एनटीएस-17489ए अब एनटीआर-16845एच), 02 अप्रैल 2010

(भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 नवम्बर 2010 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

अल्प कालिक सेवा कमीशन

सेना चिकित्सा सेवा

ले से कैप्टन के पद पर

ले ए विनय डोरा (एमएस-16564एम), 24 जुलाई 2011  
 ले संगीत कुमार (एमएस-16768वाई), 26 फरवरी 2012  
 ले प्रशांत पिलानिया (एमएस-16778एच), 26 फरवरी 2012  
 ले वरुण दीप मान (एमएस-16779एल), 26 फरवरी 2012  
 ले सत्यजित मिश्रा (एमएस-16781एच), 26 फरवरी 2012  
 ले अंचल अवस्थी (एमएस-16782एल), 26 फरवरी 2012  
 ले सौपनी मित्रा (एमएस-16787के), 26 फरवरी 2012

ले मनु तिवारी (एमएस-16792पी), 26 फरवरी 2012

ले अभिषेक महतो (एमएस-16546के), 10 फरवरी 2011

यश पांडे

ब्रिगे

उप महानिदेशक  
ससेचिसे (भा सं)

सेना शाखा

सं. 462, दिनांक 11 अक्टूबर 2012--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

नियमित सेना

अल्पकालीन सेवा कमीशन (डब्ल्यू एस ई एस)

कप्तान से मेजर

(डब्ल्यूएस-01008) नवनिका कपिल, ईएमई, डब्ल्यूएस-25 (एनटी), 19 मार्च 2005, 19 मार्च 2006, 19 मार्च 2012

(डब्ल्यूएस-01012) पुष्पा कुमारी, इंजीनियर्स, डब्ल्यूएस-25 (एनटी), 19 मार्च 2005, 19 मार्च 2006, 19 मार्च 2012

(डब्ल्यूएस-01015) भावना, एएडी, डब्ल्यूएस-25 (एनटी), 19 मार्च 2005, 19 मार्च 2006, 19 मार्च 2012

(डब्ल्यूएस-01026) पूजा चौहान, इंजीनियर्स, डब्ल्यूएस-25 (एनटी), 19 मार्च 2005, 19 मार्च 2006, 19 मार्च 2012

(डब्ल्यूएस-01030) निधि बग्डवाल, एएससी, डब्ल्यूएस-25 (एनटी), 19 मार्च 2005, 19 मार्च 2006, 19 मार्च 2012

(डब्ल्यूएस-01032) पेन्डलवर सारिका रामकुमार, जेएजी, डब्ल्यूएस-25 (एनटी), 19 मार्च 2005, 19 मार्च 2006, 19 मार्च 2012

(डब्ल्यूएस-01040) सलोनी कुठारी, एएडी, डब्ल्यूएस-25 (एनटी), 19 मार्च 2005, 19 मार्च 2006, 19 मार्च 2012

(डब्ल्यूएस-01041) अनिता झल, एओसी, डब्ल्यूएस-25 (एनटी), 19 मार्च 2005, 19 मार्च 2006, 19 मार्च 2012

(डब्ल्यूएस-01042) स्निग्धा शर्मा, इंजीनियर्स, डब्ल्यूएस-25 (एनटी), 19 मार्च 2005, 19 मार्च 2006, 19 मार्च 2012

(डब्ल्यूएस-01043) शारदा त्रिपाठी, एओसी, डब्ल्यूएस-25 (एनटी), 19 मार्च 2005, 19 मार्च 2006, 19 मार्च 2012

(डब्ल्यूएस-01044) आरती चोपड़ा, एओसी, डब्ल्यूएस-25 (एनटी), 19 मार्च 2005, 19 मार्च 2006, 19 मार्च 2012

(डब्ल्यूएस-01045) वृषाली, इंट, डब्ल्यूएस-25 (एनटी), 19 मार्च 2005, 19 मार्च 2006, 19 मार्च 2012

(डब्ल्यूएस-01050) गुंजन सेठ, ईएमई, डब्ल्यूएस-25 (एनटी), 19 मार्च 2005, 19 मार्च 2006, 19 मार्च 2012

(डब्ल्यूएस-01055) स्मिथा एम ए, एससी, डब्ल्यूएस-25 (एनटी), 19 मार्च 2005, 19 मार्च 2006, 19 मार्च 2012

(डब्ल्यूएस-01060) शिवानी, इंजीनियर्स, डब्ल्यूएस-25 (एनटी), 19 मार्च 2005, 19 मार्च 2006, 19 मार्च 2012

(डब्ल्यूएस-01061) ज्योति शर्मा, जेएजी, डब्ल्यूएस-25 (एनटी), 19 मार्च 2005, 19 मार्च 2006, 19 मार्च 2012

(डब्ल्यूएस-01063) पुर्णिमा एम के, एससी, डब्ल्यूएस-25 (एनटी), 19 मार्च 2005, 19 मार्च 2006, 19 मार्च 2012

(डब्ल्यूएस-01064) मेहरोत्रा शिखा सुशील कुमार, इंट, डब्ल्यूएस-25 (एनटी), 19 मार्च 2005, 19 मार्च 2006, 19 मार्च 2012

(डब्ल्यूएस-01075) हरजीत कौर, आईसी, डब्ल्यूएस-25 (एनटी), 17 सितम्बर 2005, 17 मार्च 2006, 17 मार्च 2012

(डब्ल्यूएस-01090) शिप्रा मिश्रा, आईसी, डब्ल्यूएस-25 (एनटी), 17 सितम्बर 2005, 17 मार्च 2006, 17 मार्च 2012

(डब्ल्यूएस-01108) ज्योति सिंह, आईसी, डब्ल्यूएस-25 (एनटी), 17 सितम्बर 2005, 17 मार्च 2006, 17 मार्च 2012

(डब्ल्यूएस-01109) प्रभा बिष्ट, आईसी, डब्ल्यूएस-25 (एनटी), 17 सितम्बर 2005, 17 मार्च 2006, 17 मार्च 2012

अल्पकालीन सेवा कमीशन (मैन)

ले से कप्तान

(एसएस-42778) निशांत शुक्ला, ईएमई, 22 सितम्बर 2007, एसएससी-84 (एनटी) 22 अप्रैल 2008, 22 अप्रैल 2010

स्थायी कमीशन

ले से कप्तान

(आईसी-75659) वरूण सूद, इंजीनियर्स

(आईसी-75660) अंकित हरजाई, एसी

(आईसी-75661) नितिन पाण्डे, आर्टी

(आईसी-75662) सौरभ पाण्डेय, एओसी

(आईसी-75663) मनोज महतोलिया, एसी

(आईसी-75664) सुखजीत सिंह, सिग्नल्स

(आईसी-75665) कार्तिक बिष्ट, सिग्नल्स

(आईसी-75666) मोहित सहदेव, मैक इन्फैन्ट्री

(आईसी-75668) योगेश कुमार शुक्ला, एससी

(आईसी-75669) मनदीप, एसी

(आईसी-756670) आकाश कुण्डू, आर्टी

(आईसी-756671) अभिलाष चन्द, इंजीनियर्स

(आईसी-756672) शिराज चौधरी, ईएमई

(आईसी-756673) विकास सिंह, आर्टी

(आईसी-756674) भरत गुप्ता, इन्फैन्ट्री

(आईसी-756675) देवेन्द्र सिंह मालध्या, आर्टी

(आईसी-756676) राहुल रावत, इंजीनियर्स

(आईसी-756677) पंकज कुमार यादव, एससी

(आईसी-75678) ऋतुराज बहुरण्डी, इन्फैन्ट्री

(आईसी-75679) सलिल जोशी, एसी

(आईसी-75680) प्रवीण सिंह, सिग्नल्स

(आईसी-75681) अंकुश शर्मा, इन्फैन्ट्री

(आईसी-75682) ऐलेक्स डेनियल, मैक इन्फैन्ट्री

(आईसी-75683) अजय मोर, ईएमई

(आईसी-75684) पियुष धारीवाल, एओसी

(आईसी-75685) मनिन्दर पाल सिंह, एएडी

(आईसी-75686) अमित गर्ग, ईएमई

(आईसी-75687) ललित कुमार तिवारी, इन्ट

(आईसी-75688) अनन्त शुक्ला, ईएमई

(आईसी-75689) संदीप कुमार मिश्रा, एएडी

(आईसी-75690) नितिन शर्मा, इन्फैन्ट्री

(आईसी-75691) सागर सुमन, इन्फैन्ट्री

(आईसी-75692) अनीष पूनिया, सिग्नल्स

(आईसी-75693) चंदन सिंह, इन्फैन्ट्री

(आईसी-75694) विशाल भाटिया, इन्फैन्ट्री

(आईसी-75695) जसजीत सिंह, ईएमई

(आईसी-75696) एम राघवेन्द्रन, आर्टी

(आईसी-75697) शिवेक शर्मा, आर्टी

(आईसी-75698) सी दिनेश, एएडी

(आईसी-75699) अमरजीत सिंह, एससी



(आईसी-75700) मयंक जोशी, सिग्नल्स	(आईसी-75732) आशीष पारीक, एसी
(आईसी-75701) हरीश एस, इन्फैन्ट्री	(आईसी-75733) प्रवीण एम के, एएडी
(आईसी-75702) नवीन दलाल, इंजीनियर्स	(आईसी-75734) प्रशान्त डोगरा, ईएमई
(आईसी-75703) गुरसिमरनजीत सिंह, आर्टी	(आईसी-75735) कौशल शर्मा, मैक इन्फैन्ट्री
(आईसी-75704) मनतेज सिंह रियार, आर्टी	(आईसी-75736) ध्रुवजीत दास, ईएमई
(आईसी-75705) विकास झा, सिग्नल्स	(आईसी-75737) पार्थ साराथि बटव्याल, आर्टी
(आईसी-75706) के नवीन कुमार, ईएमई	(आईसी-75738) दुर्लव स्वैन, एएडी
(आईसी-75707) कीर्ति वर्धन सिंह चौहान, एएससी	(आईसी-75741) अभिनव गंगराडे, इंजीनियर्स
(आईसी-75708) अखिल शर्मा, ईएमई	(आईसी-75742) हर्षित महाजन, आर्टी
(आईसी-75709) एल प्रशान्त, एएडी	(आईसी-75743) प्रत्यक्ष मुदगिल, ईएमई
(आईसी-75711) अभिनव मित्तल, एएससी	(आईसी-75744) अमित अन्सल, ईएमई
(आईसी-75712) सायन मित्रा, इंजीनियर्स	(आईसी-75745) कार्तिक सक्सेना, एसी
(आईसी-75713) प्रशांत गुप्ता, इंजीनियर्स	(आईसी-75747) पल्लव कुमार, सिग्नल्स
(आईसी-75714) नन्दु आर मेनोन, इंजीनियर्स	(आईसी-75748) धीरज शर्मा, मैक इन्फैन्ट्री
(आईसी-75715) कुलदीप कुमार, इंजीनियर्स	(आईसी-75749) प्रशान्त वी, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75716) पूरणजीत सिंह मेहता, मैक इन्फैन्ट्री	(आईसी-75750) राजेश कुमार, ईएमई
(आईसी-75717) सांगले स्टिफन अगस्टेन, इंजीनियर्स	(आईसी-75751) कौस्तुभ रॉय, सिग्नल्स
(आईसी-75718) गगनदीप सिंह, सिग्नल्स	(आईसी-75752) हरि वैभव, ईएमई
(आईसी-75719) अंतरिक्ष सलाथिया, इन्फैन्ट्री	(आईसी-75753) हरप्रीत सिंह रैना, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75720) देवोपल्लव बरुवा, इंजीनियर्स	(आईसी-75754) रिशमजोत सिंह बिन्द्रा, इंजीनियर्स
(आईसी-75721) येंडे राघवेन्द्र कुमार, इंजीनियर्स	(आईसी-75755) निशान्त निलेकर, ईएमई
(आईसी-75722) जिशो थोमस, आर्टी	(आईसी-75756) राजीव सुनील काम्बले, एएससी
(आईसी-75723) संदीप हलदर, इन्फैन्ट्री	(आईसी-75757) नवजोत रेखी, एएससी
(आईसी-75724) गुरबिन्दर सिंह, सिग्नल्स	(आईसी-75758) मेहुल ओ असनानी, इंजीनियर्स
(आईसी-75725) रविन्दर सिंह शेरॉन, एओसी	(आईसी-75759) तरूण ऐलेक्स, सिग्नल्स
(आईसी-75726) जितेन भाकर, एओसी	(आईसी-75760) अमित वर्मा, मैक इन्फैन्ट्री
(आईसी-75727) अम्बर राय कालिया, इंजीनियर्स	(आईसी-75761) टीटी बद्रीनाथ टीटी भारद्वाज, सिग्नल्स
(आईसी-75728) वी अद्वैत, इंजीनियर्स	(आईसी-75762) जगजीत भगीरथ, इंजीनियर्स
(आईसी-75729) ताजूदीन बागीवाडी, मैक इन्फैन्ट्री	(आईसी-75763) रोहित, इंजीनियर्स
(आईसी-75730) नगानुंग सिंह जाजो, एओसी	(आईसी-75764) अभय कुमार, ईएमई
(आईसी-75731) प्रद्युम्न टी एस, इंजीनियर्स	(आईसी-75765) हेमन्त कुमार यादव, सिग्नल्स

- (आईसी-75766) रौशन एस, ईएमई  
 (आईसी-75767) राहुल महाजन, आर्टी  
 (आईसी-75768) एस मोहम्मद सादिक उल अमीन, आर्टी  
 (आईसी-75769) विशाल भारती, आर्टी  
 (आईसी-75770) अरूण कृष्णनन, इंजीनियर्स  
 (आईसी-75771) मनीष थापा, ईएमई  
 (आईसी-75772) आयुष पाठक, आर्टी  
 (आईसी-75773) शेरस एम, आर्टी  
 (आईसी-75774) श्रीकान्त गोविन्द कुमार, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-75775) के नवीन रेड्डी, इंजीनियर्स  
 (आईसी-75776) जयजीत कच्छवाहा, एसी  
 (आईसी-75777) गौरव कुमार, एएडी  
 (आईसी-75778) सन्नी गौंधी, इंजीनियर्स  
 (आईसी-75779) दीपक दुबे, आर्टी  
 (आईसी-75780) धनु कुमार राय, इंजीनियर्स  
 (आईसी-75781) अभिषेक वखलु, सिग्नल्स  
 (आईसी-75782) मन्गरूलकर अमया चन्द्रकान्त, सिग्नल्स  
 (आईसी-75783) प्रमित कुन्तल, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-75784) लोमेश सिरौही, इंजीनियर्स  
 (आईसी-75785) मधुसुदन उपाध्याय, ईएमई  
 (आईसी-75786) अर्जुन चौहान, एसी  
 (आईसी-75787) तन्मय भारद्वाज, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-75788) अजय शर्मा, ईएमई  
 (आईसी-75789) गिरीश कुमार बलिहार, इन्ट  
 (आईसी-75790) सिमरनजीत सिंह, मैक इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-75791) अर्पित कंसल, आर्टी  
 (आईसी-75792) संकेत शर्मा, सिग्नल्स  
 (आईसी-75793) अर्पित सचदेवा, आर्टी  
 (आईसी-75794) शंकर कहल, इंजीनियर्स  
 (आईसी-75795) मनमोहन सिंह, सिग्नल्स  
 (आईसी-75796) विवेक शर्मा, ईएमई  
 (आईसी-75797) सैनेश भारद्वाज, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-75798) साहिल रैना, सिग्नल्स  
 (आईसी-75799) अनिल कुमार, सिग्नल्स  
 (आईसी-75800) शक्ति सिंह, एसी  
 (आईसी-75801) अतहर यूसुफ, ईएमई  
 (आईसी-75802) आशुतोष आशीष, इंजीनियर्स  
 (आईसी-75803) सार्थक नौटियाल, इंजीनियर्स  
 (आईसी-75804) ऋषभ कुमार सक्सेना, ईएमई  
 (आईसी-75805) दीपक कुमार, इंजीनियर्स  
 (आईसी-75806) आशीष महे, आर्टी  
 (आईसी-75807) पुष्पिंदर सिंह मन्हास, सिग्नल्स  
 (आईसी-75808) दीपक सुदर्शन जी, ईएमई  
 (आईसी-75810) विपुल विपिन रखेजा, एएडी  
 (आईसी-75811) रिषीश ठाकुर, एओसी  
 (आईसी-75812) सचिन चौधरी, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-75813) अनुपम पोरवाल, ईएमई  
 (आईसी-75814) विमल कुमार नायर वी, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-75815) बिकरमजीत सिंह, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-75816) नवतेज सिंह चोपड़ा, आर्टी  
 (आईसी-75817) हिमांशु यादव, मैक इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-75819) हिमांशु निगम, एएससी  
 (आईसी-75820) हरी दत्त पोखरियाल, एएससी  
 (आईसी-75821) नवप्रीत सिंह सन्धु, एएडी  
 (आईसी-75822) शिवेन्द्र सिंह अहलावत, एसी  
 (आईसी-75823) प्रिंस शर्मा, आर्टी  
 (आईसी-75825) आशिष चौधरी, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-75826) अमनबीर सिंह सिधू, एएससी  
 (आईसी-75827) अंकित गुप्ता, एसी

-- 14 जून 2011 --

प्रभात रॉस  
 उप निदेशक  
 एमएस-8सी

## थल सेना शाखा

सं. 463, दिनांक 12 अक्टूबर 2012--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

## स्थायी थल सेना

## सेना चिकित्सा कोर

## स्थायी सूबेदार मेजर (धार्मिक शिक्षक)

सूबेदार नरेन्द्र नाथ तिवारी (जेसी-161067के), 01 अगस्त 2011  
 सूबेदार राम लाल (जेसी-161068एम), 01 अगस्त 2011  
 सूबेदार शिव नाथ तिवारी (जेसी-161069पी), 01 अगस्त 2011  
 सूबेदार व्यास प्रसाद मिश्रा (जेसी-161071एम), 01 अगस्त 2011  
 सूबेदार मिथिलेश प्रसाद मिश्रा (जेसी-161073एक्स), 01 अगस्त 2011  
 सूबेदार राम नरेश दिक्षित (जेसी-161074एम), 01 अगस्त 2011  
 सूबेदार महा प्रसाद पाण्डेय (जेसी-161106एक्स), 01 अगस्त 2011

## स्थायी सूबेदार मेजर (चेफ हास्पिटल)

सूबेदार दावतसनेरिंग लेपचा (जेसी-693360एक्स), 01 जनवरी 2011  
 सूबेदार सुधाकरन कोटली (जेसी-693321वाई), 01 अक्टूबर 2011

## स्थायी सूबेदार (धार्मिक शिक्षक)

नायब सूबेदार फनेन्द्र कुमार (जेसी-617337डब्ल्यू), 01 मई 2010  
 नायब सूबेदार मदन पाण्डेय (जेसी-693213पी), 01 फरवरी 2011  
 नायब सूबेदार आशीश कुमार मिश्रा (जेसी-797186एच), 01 फरवरी 2011  
 नायब सूबेदार सुभकान्त मिश्रा (जेसी-693212एम), 01 फरवरी 2011  
 नायब सूबेदार कामेश्वर पाठक (जेसी-693366वाई), 01 अगस्त 2011  
 नायब सूबेदार सन्तोष कुमार पाण्डेय (जेसी-693367एफ), 01 अगस्त 2011  
 नायब सूबेदार विकास नारायण मिश्रा (जेसी-693368के), 01 अगस्त 2011  
 नायब सूबेदार रमाकान्त त्रिपाठी (जेसी-693369एम), 01 सितम्बर 2011  
 नायब सूबेदार यतीन्द्र कुमार शर्मा (जेसी-693370एफ), 01 अक्टूबर 2011  
 नायब सूबेदार रविन्द्र कुमार पाण्डेय (जेसी-693392ए), 01 फरवरी 2012  
 नायब सूबेदार श्री सुरेन्द्र कुमार त्रिपाठी (जेसी-693393एच), 01 फरवरी 2012  
 नायब सूबेदार घनश्याम मिश्रा (जेसी-693394एल), 01 फरवरी 2012

नायब सूबेदार गनपत सुब्राव धन वडे (जेसी-693879एन), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार दिल बहादुर थापा (जेसी-693880एच), 01 जून 2011

नायब सूबेदार विनय सिंह (जेसी-693881एल), 01 अक्टूबर 2011

नायब सूबेदार सुबोध कुमार सिंह (जेसी-693918एफ), 01 नवम्बर 2011

नायब सूबेदार जनार्दन नाथू पाटिल (जेसी-694033वाई), 01 जनवरी 2012

नायब सूबेदार शमसेर अली (जेसी-694034एफ), 01 मार्च 2012

नायब सूबेदार धरम राज प्रसाद (जेसी-695143ए), 01 अप्रैल 2012

अजय सक्सेना  
 अवर सचिव

## वायु शाखा

सं. 464, दिनांक 12 अक्टूबर 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं :--

## भारतीय वायु सेना

## लेखा शाखा

## एयर कमोडोर के मूल रैंक में

सी वी सुब्रामनीयन (14982), लेखा, 02 मार्च 2009

जी मैथ्यु (14987), लेखा, 02 मार्च 2009

## ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में

ग्रुप कैप्टन वी एस गिरिधर (16875), लेखा, 03 नवम्बर 2008

ग्रुप कैप्टन एस एम सुभानी (16865), लेखा, 03 नवम्बर 2008

(इनका नाम ग्रुप कैप्टन एस सहाय (16873), लेखा के नीचे संयुक्त वरीयता सूची में आएगा)

ग्रुप कैप्टन एन पी एस डाल्मी (16872), लेखा, 02 मार्च 2009

ग्रुप कैप्टन डी बी वी दत्त (16879), लेखा, 27 जुलाई 2009 (कल्पित वरीयता 01 मई 2009)

ग्रुप कैप्टन ई पी पी नंबियार (16886), लेखा, 01 मई 2009

ग्रुप कैप्टन पी एस बाबू (17908), लेखा, 01 अक्टूबर 2009

ग्रुप कैप्टन आर के खत्री (17909), लेखा, 01 अप्रैल 2010

ग्रुप कैप्टन जे बी बोस (17914), लेखा, 01 अप्रैल 2010

ग्रुप कैप्टन एन वी श्रीनिवास (17920), लेखा, 01 अप्रैल 2010

सेना शाखा

ए के सिंह

उप निदेशक कार्मिक अधिकारी 2(बी)

सं. 467, दिनांक 16 अक्टूबर 2012--राष्ट्रपति महोदय, यथाशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अंतर्गत 5 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

सेना शाखा

सं. 465, दिनांक 15 अक्टूबर 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी को सेवा निवृत्ति की अवधि पूरी होने पर सैनिक सेवा से निवृत्ति होने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना

नियमित सेना

अल्पकालीन आयोग

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

सेना चिकित्सा सेवा (गैर तकनीकी)

ले कर्नल भगवान यादव (एनटीआर-16655डब्ल्यू), 30 जून 1955--  
30 जून 2011 (अपराह्न)

फ्ला ले अजय कुमार यादव (एम एस-16360ए) (एएफ-30700एफ),  
कमीशन की तिथि 20 अगस्त 2009

यश पांडे

ब्रिगे

उप महानिदेशक  
ससेचिसे (मा सं)

उपरोक्त नामित अधिकारी का पूर्व-दिनांकित वरिष्ठता डी जी एन, जो कि दिनांक 04 जनवरी 2011 को स्वीकृत किया गया और दिनांक 25 मई, 2011 के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, इसमें निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है :--

सेना शाखा

सं. 466, दिनांक 15 अक्टूबर 2012--राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित की सहर्ष पदोन्नति करते हैं :--

के लिए --

नियमित सेना

वेतन एवम् पदोन्नति के लिए वरिष्ठता दिनांक 19 फरवरी 2009 से दी जायेगी

स्थाई आयोग

पढ़ें --

शुद्धिपत्र

ले कर्नल से कर्नल (चयन द्वारा) के मूल रूप में पदोन्नति  
के लिए--खाली  
पढ़ें--

वेतन एवम् पदोन्नति के लिए वरिष्ठता दिनांक 20 फरवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-43410) दीपक डे, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006

टी के दास

उप निदेशक

एम एस-8ए

यश पांडे

ब्रिगे

उप महानिदेशक  
ससेचिसे (मा सं)

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 3rd November 2012

## (FINANCE DIVISION)

No. 453, dated 5th October 2012—The President is pleased to appoint Amarjit Singh, CSS as Deputy Financial Adviser (Deputy Secretary) on ad hoc basis in the Ministry of Defence (Finance) with effect from the forenoon of 31 Jul 2012 for a period of one year or until further orders.

The President is pleased to appoint K V Krishna Kumar, CSS as Deputy Financial Adviser (Deputy Secretary) on ad hoc basis in the Ministry of Defence (Finance) with effect from the forenoon of 31 Jul 2012 for a period of one year or until further orders.

RAVI KATYAL  
Asstt Financial Adviser (Estt)

## ARMY BRANCH

No. 454, dated 5th October 2012—The President is pleased to make the following appointment for a period of 5 years under AI 75/78 as amended :—

## REGULAR ARMY

## SHORT SERVICE COMMISSION

To be Capt (on probation)

Capt Khanna Viraj Vijay (MS-16808P), AMC, 26 Sep 2011

Capt Manuj Jain (MS-16813A), AMC, 27 Sep 2011

Capt Aman Deep Singh Randhawa (MS-16816N), AMC, 27 Sep 2011

Capt Ikraj Singh (MS-16817W), AMC, 27 Sep 2011

Capt Gagandeep Malik (MS-16822F), AMC, 27 Sep 2011

Capt Neeraj Singh (MS-16823K), AMC, 27 Sep 2011

Capt Vaishali Gupta (MS-16826X), AMC, 27 Sep 2011

Capt Ghazala Mohammad Usman Shaikh (MS-16827A), AMC, 27 Sep 2011

Capt Aroma Ghotra (MS-16831H), AMC, 27 Sep 2011

Capt Rupali Bose (MS-16835Y), AMC, 27 Sep 2011

Capt Gurjot Singh (MS-16841M), AMC, 27 Sep 2011

Capt Bipul Kumar Singh (MS-16842P), AMC, 27 Sep 2011

Capt Kalpana Jain (MS-16846L), AMC, 28 Sep 2011

Capt Datta Shravani Utpal (MS-16847N), AMC, 29 Sep 2011

Capt Anil Kumar (MS-16849Y), AMC, 29 Sep 2011

Capt Siva Sankari M (MS-16850N), AMC, 29 Sep 2011

Capt Pankaj Vats (MS-16851W), AMC, 29 Sep 2011

Capt Arjun Joshi (MS-16863L), AMC, 21 Oct 2011

Capt Murugesh A (MS-16870F), AMC, 22 Nov 2011

Capt Manoj Kumar (MS-16878N), AMC, 01 Dec 2011

Capt Pavan DV (MS-16133A), AMC, 28 Jul 2009

Capt Warriar Rachana Sreelatha (MS-16112K), AMC, 28 Jul 2009

Capt Mokdam Ali (MS-16293A), AMC, 18 Aug 2009

Capt Sandeep B Dolla (MS-16340M), AMC, 11 Aug 2009

Capt Sachin Maggo (MS-16598A), AMC, 15 Jun 2010

Capt Shilpa Sinha (MS-16119N), AMC, 28 Jul 2009

Capt Moseen Moneer (MS-16620A), DOC, 15 Jun 2010 with seniority for pay and promotion from 15 Dec 2009. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Shaieq Shafi Raja (MS-16323M), DOC, 31 Jul 2009 with seniority for pay and promotion from 31 Jan 2009. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt M Ziaur Rahman Hifzur Rahman (MS-16649H), DOC, 15 Jun 2010 with seniority for pay and promotion from 15 Dec 2009. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Mannu Kumar Tiwari (MS-15866M), DOC, 12 Aug 2008 with seniority for pay and promotion from 12 Feb 2008. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Manoj Ramkrishna Kashid (MS-16761P), DOC, 11 Dec 2010 with seniority for pay and promotion from 11 Dec 2007. This includes 36 months antedate for Master of Surgery (Orthopaedics) which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

To be Flt Lt (on probation)

Flt Lt Smita Rani Borgohain (MS-16416F) (AF-30715H), DOC, 31 Dec 2009 with seniority for pay and promotion from 30 Jun 2009. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Flt Lt Suraj Giri (MS-16613K) (AF-31091R), DOC, 15 Jun 2010 with seniority for pay and promotion from 15 Dec 2009. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Flt Lt Abha Khurana (MS-16380N), DOC, 30 Dec 2009 with seniority for pay and promotion from 30 Dec 2006. This includes 36 months antedate for Diplomat of National Board (Obstetrics & Gynaecology) which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Flt Lt Manjitpal Singh (MS-16308X) (AF-30368S), AMC, 27 Jul 2009

Flt Lt Varun Kumar Chaudhary (MS-16574W) (AF-30376R), AMC, 10 Aug 2009

Flt Lt Rahul Kumar (MS-16002P), AMC, 26 Feb 2009

Flt Lt Swati Srivastava (MS-16805F) (AF-31084A), AMC, 15 Jun 2010

Flt Lt Juhi Arora (MS-16873P) (AF-32058H), AMC, 22 Nov 2011

Flt Lt Hari Prasath M (MS-16825P) (AF-32049G), AMC, 27 Sep 2011

Flt Lt Sunny Tomar (MS-16836F) (AF-32052G), AMC, 27 Sep 2011

Flt Lt Amandeep Singh (MS-16262A) (AF-30702L), AMC, 21 Aug 2009

Flt Lt Pradeesh A (MS-16829L) (AF-32050T), AMC, 27 Sep 2011

Flt Lt Rohan Rajan (MS-16888X) (AF-32061H), AMC, 17 Jan 2012

Flt Lt Abin Stanley (MS-16832L) (AF-32051B), AMC, 27 Sep 2011

Flt Lt Sapna Raina (MS-16858A) (AF-32056A), AMC, 21 Oct 2011

#### To be Surg Lt

Surg Lt Harish Chandra (MS-16295L), DOC, 20 Aug 2009 with seniority for pay and promotion from 20 Feb 2009. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Surg Lt Satish Anton A (MS-16892A) (76141), AMC, 17 Jan 2012

Surg Lt Chilaka Rajesh (MS-16392H) (76056B), AMC, 30 Dec 2009

Surg Lt Uzma Mulla (MS-16812X), AMC, 27 Sep 2011

Surg Lt Parvathi P (MS-16815L), AMC, 27 Sep 2011

Surg Lt Nikhilkumar Mestha (MS-16818Y), AMC, 27 Sep 2011

Surg Lt Sanasam Ushakiran Singh (MS-16824M), AMC, 27 Sep 2011

Surg Lt Zara Wani (MS-16834W), AMC, 27 Sep 2011

Surg Lt Pratibha Chandra (MS-16840K), AMC, 27 Sep 2011

Surg Lt Rishendra Singh Sisodia (MS-16848W), AMC, 29 Sep 2011

Surg Lt Hainor Mangesh Machindra (MS-16853F), AMC, 29 Sep 2011

Surg Lt Ragi Jasvinderpal Singh (MS-16860X), AMC, 21 Oct 2011

Surg Lt Ankur Joshi (MS-16864N), AMC, 17 Nov 2011

Surg Lt Mayank Dua (MS-16867F), AMC, 22 Nov 2011

Surg Lt Ankit Kakar (MS-16877L), AMC, 22 Nov 2011

Surg Lt Bismita Moharana (MS-16113M), AMC, 28 Jul 2009

Surg Lt Arun Narayanan (MS-16837K), AMC, 27 Sep 2011

Surg Lt Rabindra Bhunia (MS-16845H), AMC, 28 Sep 2011

Surg Lt Kasiviswanathan M (MS-16856P), AMC, 21 Oct 2011

Surg Lt Archana Chauhan (MS-16868K), AMC, 22 Nov 2011

Surg Lt Pawar Mohanish Ramesh (MS-16882W), AMC, 17 Jan 2012

Surg Lt Yadav Navin Kumar Murlidhar (MS-16886M), AMC, 17 Jan 2012

The President is pleased to make the following appointment for a period of 7 years under AI 75/78 as amended :—

#### REGULAR ARMY

##### SHORT SERVICE COMMISSION

(To be Lt on probation)

Lt Shashank Kumar Singh (MS-16783N), AMC, 18 Mar 2011

Lt Satyajit Mishra (MS-16781H), AMC, 18 Mar 2011

Lt Nisha R (MS-16785Y), AMC, 18 Mar 2011

Lt Ratan Kumar Sadangi (MS-16790K), AMC, 18 Mar 2011

Lt Bishnu Raj (MS-16789P), AMC, 18 Mar 2011

Lt Ankur Garg (MS-16791M), AMC, 18 Mar 2011

To be Surg Sub Lt on probation

Surg Sub Lt GSR Kishore Kumar (MS-16775P)(76102H),  
AMC, 18 Mar 2011

YASH PANDE  
Brig  
Dy DGAFMS(HR)

(ARMY BRANCH)

No. 455, dated 8th October 2012—The President is pleased to make the following appointments :—

(REGULAR ARMY)  
(SPECIAL COMMISSION)

The undermentioned 22 Gentlemen Cadets (less S/810, SC-00674X Amit Kumar, Arty) are granted Special Commission in the Arm/Service as shown against their name in the rank of Lt under AI 5/97 with effect from 10 Dec 2011. S/810, SC-00674X Amit Kumar, Arty who was LMC at the time of commissioning and after becoming SHAPE-1 he has been granted Special Commission in the Arm/Service as shown against his name in the rank of Lt under AI 5/97 with effect from 23 Apr 2012.

S/808, 5849893Y, Inf, Vishal Chheeri, 00653F, AOC

S/796, 4274372H, Inf, Arun Kumar Pandey, 00654K, Inf

S/798, 9513548A, AEC, Ashok Kumar Duhan, 00655M, Arty

S/812, JC-377481W, Sigs, Krishan Gopal Sharma, 00656P, ASC

S/809, JC-299767P, AAD, Unnikrishnan A, 00657X, AAD

S/793, 13762748W, Inf, Dinesh Kumar, 00658A, Inf

S/806, 14841587W, ASC, Pradeep Tyagi, 00659H, Inf

S/799, 15695465M, Sigs, Soumitra Maiti, 00660X, AC

S/811, 15480359M, AC, Bhadrappa G, 00661A, Inf

S/787, JC-764891F, EME, Sasikumar M, 00662H, AC

S/807, 5249643A, Inf, Navneet Gurung, 00663L, Arty

S/801, 6394527P, ASC, Umesh Pandey, 00664N, ASC

S/803, 4081810Y, Inf, Shashi Bhushan, 00665W, Inf

S/804, 5456456N, Inf, Kundan Thapa, 00666Y, Inf

S/797, 9513171F, AEC, Rajesh Kumar, 00667F, Arty

S/805, 6942944K, AOC, Nishant Kumar, 00668K, AOC

S/792, 15774338Y AAD, Keshavan V M, 00669M, ASC

S/800, 15779011K, AAD, Kulkarni Somnath Prabhakar, 00670F, Arty

S/802, 5047910M, Inf Jivan Kumar Budha, 00671K, Inf

S/795, 14846289K, ASC, Amit Kumar, 00672M, Inf

S/794, 15321634P, Engrs, P Loganathan, 00673P, Engrs

S/810, 15121280N, Arty, Amit Kumar, 00674X, Arty

RAHUL SANGWAN  
Lt Col  
AMS-8B

ARMY BRANCH

No. 456, dated 8th October 2012—The President is pleased to make the following appointments under the provision of SAI 3/S/70 as amended:—

REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION

The undermentioned Short Service Commissioned Officer has been granted Permanent Commission in the rank of Maj wef 03 Mar 2011, on relinquishing his Short Service Commission wef 03 Mar 2011:—

SS-39112W, IC-65301X, Amith Mehta, AC

The date of seniority in respect of above mentioned officer will be as follows:—

The Date for increments of pay—03 Mar 2001

The date for promotion—03 Nov 2002

(After depressing 12 months seniority with respect to the date of seniority assigned to the officers of his batch who were granted permanent commission on completion of 5 years of service)

The inter-se-seniority vis-a-vis to the above mentioned Short Service Commissioned Officer granted Permanent Commission in 10th Years alongwith the officer of their batch granted PC in the 8th year, will however remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission of SSC-71(NT) Course

The undermentioned Short Service Commissioned Officer has been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 23 Nov 2009 on relinquishing his Short Service Commission wef 23 Nov 2009:—

SS-38902Y IC-65291Y, Anupam Chaure, JAG

The dates to be considered in respect of above mentioned officer in regular commission will be as follows:—

The date for increments of pay—03 Mar 2001

The date of seniority for promotion—03 Nov 2002

(After depressing 12 months seniority with respect to the date of seniority assigned to the officers of his batch who were granted permanent commission on completion of 5 years of service)

The inter-se-seniority, vis-a-vis those granted Permanent Commission in the 8th years of service, of SSC-71 (Non Tech) Course, will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission

The undermentioned Short Service Commissioned Officer has been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 06 Sep 2008, on relinquishing his Short Service Commission wef 06 Sep 2008:—

SS-40387W, IC-65977A, Rajesh Madhwani, Inf

The dates to be considered in respect of above mentioned officer in regular commission will be as follows:—

Date for increments of pay—06 Sep 2003

Date of seniority for promotion—06 May 2004

The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officer granted Permanent Commission after 5 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission

JEETENDRA OHRI

Col

Col MS-7

#### ARMY BRANCH

No. 457, dated 9th October 2012—The President is pleased to make the following promotions:—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

#### (ARMY MEDICAL CORPS)

AVM (& equivalent) to be Air Mshl (& equivalent)

A K Behl, (MR-03599K) (14446A), AVSM, 13 Apr 2012 with notional seniority without effect on pay and pension from 01 Apr 2012

S KUMARAVELU

Maj Gen

Addl DGAFMS (HR)

#### REGULAR ARMY

#### (PERMANENT COMMISSION)

No. 458, dated 9th Oct 2012—The President is pleased to make the following promotion in respect of MNS officers with effect from the date(s) mentioned against the each name:—

Brig to Maj Gen

Maj Gen H J Bhullar NR-15556F, 01 May 2012

Colonel to Brig

Brig Louise Dahal NR-16354M, 02 Apr 2012

Lt Col (Select) to Col

Col Parinita Khanna NR-17065K, 01 Dec 2011

Col Geetha Kumari NR-17381H, 02 Jan 2012

Col Savithriamma K NR-17402N, 02 Apr 2012

Lt Col (TS) To Lt Col (Select)

Lt Col Sushma G NR-18121K, 09 Jan 2012

Lt Col Neelam Sharma NR-18061A, 17 Aug 2011

Capt to Maj

Maj Renu Varghese NR-20385K, 26 Sep 2008

[DOC :—06 Sep 1996, 20 Days EOL (without pay & allowances) granted wef 04 Sep 2004 to 23 Sep 2004]

JK GREWAL

Maj Gen

Addl DGMNS

#### ARMY BRANCH

No. 459, dated 10th October 2012—The President is pleased to make the following promotion :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

Lt Cols to be Subs Col (By Time Scale)

(IC-41421X) Lt Col SK Sood, AAD, 18 Jun 2009

(IC-41800N) Lt Col VK Goindi, ASC, 17 Dec 2009

(IC-41832W) Lt Col Jaipal Rampal, AEC, 17 Dec 2009

(IC-43122X) Lt Col NL Karia, Inf, 08 Jun 2011

(IC-43290W) Lt Col Monish Gaur, AOC, 14 Dec 2011

(IC-43535F) Lt Col Sumesh Gupta, Engrs, 14 Dec 2011

(IC-43649M) Lt Col KK Ghosh, AEC, 14 Dec 2011

(IC-45502P) Lt Col PS Grewal, ASC, 07 Nov 2011

(IC-45523L) Lt Col Fernandes R John, Inf, 22 Apr 2012

(IC-45553H) Lt Col KS Bajwa, Sigs, 22 Apr 2012

(V-00422L) Lt Col PK Singh, RVC, 16 May 2012

(V-00423N) Lt Col BN Gupta, RVC, 16 May 2012

(IC-42417F) Lt Col TK Chatterjee, Int Corps, 15 Dec 2010

TK DAS

Dy Dir MS-8A



## ARMY BRANCH

No. 460, dated 10th October 2012—The President is pleased to make the following promotions :—

## TERRITORIAL ARMY

## TERRITORIAL COMMISSION

To be Lt Col

Maj Rajesh Nayak (TA-42530), Inf, 23 Apr 2012

Maj Sanjay Dabas (TA-42345), Inf, 07 May 2012

BRIJ KUMAR  
Dy Secy

## ARMY BRANCH

No. 461, dated 11th October 2012—The President is pleased to make the following promotions :—

## REGULAR ARMY

## SHORT SERVICE COMMISSION

## ARMY MEDICAL CORPS

Maj to Lt Col

Maj Aditi Dusaj (MS-14751M), 17 Feb 2012

Maj Sheen Job (MS-14063N), 05 Jul 2011

Maj Sanjay Kumar Shrivastava (MS-14105P), 08 Sep 2011

Maj Yashin Ansari (MS-14204X), 05 Aug 2011

Maj Trilokeshwar Mahto (MS-14696F), 09 Dec 2011

Maj Renu Sharma (MS-13877A), 23 Aug 2010

Maj Rajeev Kumar Tripathi (MS-14229K), 12 Mar 2012

Maj Pradeep Misra (MS-16150A), 08 Mar 2012

Maj Sreedhar K (MS-14644L), 10 Feb 2012

Maj Rajeev K (MS-14198P), 24 Jan 2012

Maj Niraj Kapoor (MS-14207L), 06 Feb 2012

Surg Lt to Surg Lt CDR

Surg Lt Ashish Kumar Vashisth (MS-15815Y) (75974T),  
25 Apr 2012

Surg Lt Manoj George Varghese (MS-15881F) (75984R),  
12 Feb 2012

Capt to Maj

Capt Gaurav Kumar Bhangotra (MS-15649W), 15 Nov 2011

Capt Sushil Kumar (MS-15731L), 25 Oct 2011

Capt Bhupendra Yadav (MS-15771M), 25 Oct 2011

Capt Mayank Dixit (MS-15777N), 25 Oct 2011

Capt Lakshmi PK (MS-15502A), 06 Feb 2012

Capt Niharika Bisht (MS-15508F), 06 Feb 2012

Capt Rahmani Sumbul Khan (MS-15533A), 06 Feb 2012

Capt Sunil Kumar (MS-15542F), 06 Feb 2012

Capt Sudip Azad (MS-15546X), 14 Feb 2012

Capt Preetesh Sahani (MS-15861N), 12 Feb 2012

Capt Chhavi Arora (MS-15509K), 06 Feb 2012

Capt Kanhaiyalal Patidar (MS-15522N), 06 Feb 2012

Capt Birinder Singh Gill (MS-15536N), 07 Feb 2012

Capt Nilabh Kumar Singh (MS-15540W), 06 Feb 2012

Capt Abhinav Aswal (MS-15541Y), 06 Feb 2012

Capt Rohan J (MS-15834K), 22 Nov 2011

Capt Jagmeet Singh Arora (MS-15037Y), 12 Apr 2009

Capt Kulkarni Asmita Mahadev (MS-15596H), 06 Sep 2011

Capt Anshul Bhide (MS-15800W), 25 Oct 2011

Capt Lemjoy Chara (MS-15872A), 12 Feb 2012

Capt Romil Seth (MS-15896K), 12 Feb 2012

Capt Shubhrojjwal Saha (MS-15909W), 12 Feb 2012

Capt Saurabh Mahesh Gupta (MS-16391A), 30 Dec 2011

Capt Mohd Abbas Jafri (MS-16456H), 07 Jan 2012

Capt Parmod Mahender (MS-16693M), 16 Jun 2011

## PERMANENT COMMISSION

## ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

Capt to Maj

Maj Om Prakash Bishnoi (NTS-17489A now NTR-16845H), 02 Apr 2010

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 06 Nov 2010 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

## SHORT SERVICE COMMISSION

## ARMY MEDICAL CORPS

To be Capt

Lt A Vinay Dora (MS-16564M), 24 Jul 2011

Lt Sangeet Kumar (MS-16768Y), 26 Feb 2012

Lt Prashant Pilania (MS-16778H), 26 Feb 2012

Lt Varun Deep Mann (MS-16779L), 26 Feb 2012

Lt Satyajit Mishra (MS-16781H), 26 Feb 2012

Lt Anchal Awasthi (MS-16782L), 26 Feb 2012

Lt Souparno Mitra (MS-16787K), 26 Feb 2012

Lt Manu Tiwari (MS-16792P), 26 Feb 2012

Lt Abhishek Mahato (MS-16546K), 10 Feb 2011

YASH PANDE  
Brig  
Dy DGAFMS (HR)

#### ARMY BRANCH

No. 462, dated 11th October 2012—The President is pleased to make the following promotions:—

#### REGULAR ARMY

#### SHORT SERVICE COMMISSION (WSSES)

Capt to be Maj

Name, WS No., Arm, Course, Date of Seniority, Revised date of seniority for Promotion and date of Sub Major

Navnika Kapil (WS-01008), EME, WS-25(NT), 19 Mar 2005, 19 Mar 2006/19 Mar 2012

Pushpa Kumari (WS-01012), Engrs, WS-25(NT), 19 Mar 2005, 19 Mar 2006/19 Mar 2012

Bhawana (WS-01015), AAD, WS-25(NT), 19 Mar 2005, 19 Mar 2006/19 Mar 2012

Pooja Chauhan (WS-01026), Engrs, WS-25(NT), 19 Mar 2005, 19 Mar 2006/19 Mar 2012

Nidhi Bagdwal (WS-01030), ASC, WS-25(NT), 19 Mar 2005, 19 Mar 2006/19 Mar 2012

Pendalwar Sarika Ramkumar (WS-01032), JAG, WS-25(NT), 19 Mar 2005, 19 Mar 2006/19 Mar 2012

Saloni Kuthari (WS-01040), AAD, WS-25(NT), 19 Mar 2005, 19 Mar 2006/19 Mar 2012

Anita Sral (WS-01041), AOC, WS-25(NT), 19 Mar 2005, 19 Mar 2006/19 Mar 2012

Snigdha Sharma (WS-01042), Engrs, WS-25(NT), 19 Mar 2005, 19 Mar 2006/19 Mar 2012

Sharda Tripathi (WS-01043), AOC, WS-25(NT), 19 Mar 2005, 19 Mar 2006/19 Mar 2012

Arti Chopra (WS-01044), AOC, WS-25(NT), 19 Mar 2005, 19 Mar 2006/19 Mar 2012

Vrishali (WS-01045), Int, WS-25(NT), 19 Mar 2005, 19 Mar 2006/19 Mar 2012

Gunjan Seth (WS-01050), EME, WS-25(NT), 19 Mar 2005, 19 Mar 2006/19 Mar 2012

Smitha MA (WS-01055), ASC, WS-25(NT), 19 Mar 2005, 19 Mar 2006/19 Mar 2012

Shivani (WS-01060), Engrs, WS-25(NT), 19 Mar 2005, 19 Mar 2006/19 Mar 2012

Jyoti Sharma (WS-01061), JAG, WS-25(NT), 19 Mar 2005, 19 Mar 2006/19 Mar 2012

Poornima MK (WS-01063), ASC, WS-25(NT), 19 Mar 2005, 19 Mar 2006/19 Mar 2012

Mehrotra Shikha Sushilkumar (WS-01064), Int, WS-25(NT), 19 Mar 2005, 19 Mar 2006/19 Mar 2012

Harjot Kaur (WS-01075), AEC, WS-26(NT), 17 Sep 2005, 17 Mar 2006/17 Mar 2012

Shipra Mishra (WS-01090), AEC, WS-26(NT), 17 Sep 2005, 17 Mar 2006/17 Mar 2012

Jyoti Singh (WS-01108), AEC, WS-26(NT), 17 Sep 2005, 17 Mar 2006/17 Mar 2012

Prabha Bisht (WS-01109), AEC, WS-26(NT), 17 Sep 2005, 17 Mar 2006/17 Mar 2012

#### SHORT SERVICE COMMISSION (MEN)

Lt to be Capt

Name, SS No., Arm, Course, Date of Seniority, Adjusted date of seniority for Promotion and date of grant of subs rank of Capt

Nishant Shukla (SS-42778), EME, SSC-84(NT), 22 Sep 2005, 22 Apr 2008/22 Apr 2010

#### PERMANENT COMMISSION

Lt to be Capt

(IC-75659) Varun Sood, Engrs

(IC-75660) Ankit Harjai, AC

(IC-75661) Nitin Pandey, Arty

(IC-75662) Saurabh Pandey, AOC

(IC-75563) Manoj Mahtolia, AC

(IC-75664) Sukhjeet Singh, Sigs

(IC-75665) Kartik Bisht, Sigs

(IC-75666) Mohit Sahdev, Mech Inf

(IC-75668) Yogesh Kumar Shukla, ASC

(IC-75669) Mandeep, AC

(IC-75670) Akash Kundu, Arty

(IC-75671) Abhilash Chand, Engrs

(IC-75672) Shiraz Chaudhary, EME

(IC-75673) Vikas Singh, Arty

(IC-75674) Bharat Gupta, Inf

(IC-75675) Devendra Singh Maldhya, Arty

(IC-75676) Rahul Rawat, Engrs

- (IC-75677) Pankaj Kumar Yadav, ASC  
(IC-75678) Rituraj Bahukhandi, Inf  
(IC-75679) Salil Joshi, AC  
(IC-75680) Praveen Singh, Sigs  
(IC-75681) Ankush Sharma, Inf  
(IC-75682) Alex Daniel, Mech Inf  
(IC-75683) Ajay Mor, EME  
(IC-75684) Piyush Dhariwal, AOC  
(IC-75685) Maninder Pal Singh, AAD  
(IC-75686) Amit Garg, EME  
(IC-75687) Lalit Kumar Tiwari, Int  
(IC-75688) Anant Shukla, EME  
(IC-75689) Sandeep Kumar Mishra, AAD  
(IC-75690) Nitin Sharma, Inf  
(IC-75691) Sagar Suman, Inf  
(IC-75692) Anish Poonia, Sigs  
(IC-75693) Chandan Singh, Inf  
(IC-75694) Vishal Bhatia, Inf  
(IC-75695) Jasjeet Singh, EME  
(IC-75696) M Ragavendran, Arty  
(IC-75697) Shivek Sharma, Arty  
(IC-75698) C Dinesh, AAD  
(IC-75699) Amarjit Singh, ASC  
(IC-75700) Mayank Joshi, Sigs  
(IC-75701) Harish S, Inf  
(IC-75702) Navin Dalal, Engrs  
(IC-75703) Gursimranjit Singh, Arty  
(IC-75704) Mantej Singh Riar, Arty  
(IC-75705) Vikas Jha, Sigs  
(IC-75706) K Naveen Kumar, EME  
(IC-75707) Kirti Vardhan Singh Chauhan, ASC  
(IC-75708) Akhil Sharma, EME  
(IC-75709) L Prashant, AAD  
(IC-75711) Abhinav Mittal, ASC  
(IC-75712) Sayan Mitra, Engrs  
(IC-75713) Prashant Gupta, Engrs  
(IC-75714) Nandu R Menon, Engrs  
(IC-75715) Kuldeep Kumar, Engrs  
(IC-75716) Puranjit Singh Mehta, Mech Inf  
(IC-75717) Sangale Stephen Augustine, Engrs  
(IC-75718) Gagandeep Singh, Sigs  
(IC-75719) Antriksh Slathia, Inf  
(IC-75720) Devopallav Baruah, Engrs  
(IC-75721) Yende Raghavendra Kumar, Engrs  
(IC-75722) Jisho Thomas, Arty  
(IC-75723) Sandip Halder, Inf  
(IC-75724) Gurubinder Singh, Sigs  
(IC-75725) Ravinder Singh Sheoran, AOC  
(IC-75726) Jiten Bhakar, AOC  
(IC-75727) Amber Rai Kalia, Engrs  
(IC-75728) V Advait, Engrs  
(IC-75729) Tajuddin Bagewadi, Mech Inf  
(IC-75730) Nganungsing Jajo, AOC  
(IC-75731) Pradyumna T S, Engrs  
(IC-75732) Ashish Pareek, AC  
(IC-75733) Praveen M K, AAD  
(IC-75734) Prashant Dogra, EME  
(IC-75735) Kaushal Sharma, Mech Inf  
(IC-75736) Dhrubajit Das, EME  
(IC-75737) Partha Sarathi Batabyal, Arty  
(IC-75738) Durlav Swain, AAD  
(IC-75741) Abhinav Gangrade, Engrs  
(IC-75742) Harshit Mahajan, Arty  
(IC-75743) Pratyaksh Mudgil, EME  
(IC-75744) Amit Ansal, EME  
(IC-75745) Kartik Saxena, AC  
(IC-75747) Pallove Kumar, Sigs  
(IC-75748) Dheeraj Sharma, Mech Inf  
(IC-75749) Prashanth V, Inf  
(IC-75750) Rajesh Kumar, EME  
(IC-75751) Kaustubh Roy, Sigs  
(IC-75752) Hari Vaibhav, EME  
(IC-75753) Harpreet Singh Raina, Inf  
(IC-75754) Rishamjot Singh Bindra, Engrs

(IC-75755) Nishant Nilekar, EME	(IC-75792) Sanket Sharma, Sigs
(IC-75756) Rajiv Sunil Kamble, ASC	(IC-75793) Arpit Sachdeva, Arty
(IC-75757) Navjot Rekhi, ASC	(IC-75794) Shankar Kehal, Engrs
(IC-75758) Mehul O Asnani, Engrs	(IC-75795) Manmohan Singh, Sigs
(IC-75759) Tarun Alex, Sigs	(IC-75796) Vivek Sharma, EME
(IC-75760) Amit Verma, Mech Inf	(IC-75797) Sainesh Bharadwaj, Inf
(IC-75761) TT Badrinath TT Bharadwaj, Sigs	(IC-75798) Sahil Raina, Sigs
(IC-75762) Jagjit Bhagirath, Engrs	(IC-75799) Anil Kumar, Sigs
(IC-75763) Rohit, Engrs	(IC-75800) Shakti Singh, AC
(IC-75764) Abhay Kumar, EME	(IC-75801) Athar Yusuf, EME
(IC-75765) Hemant Kumar Yadav, Sigs	(IC-75802) Ashutosh Ashish, Engrs
(IC-75766) Roshan S, EME	(IC-75803) Sarthak Nautiyal, Engrs
(IC-75767) Rahul Mahajan, Arty	(IC-75804) Rishabh Kumar Saxena, EME
(IC-75768) S Mohammed Sadiq Ul Ameen, Arty	(IC-75805) Deepak Kumar, Engrs
(IC-75769) Vishal Bharti, Arty	(IC-75806) Ashish Mehay Arty
(IC-75770) Arun Krishnan, Engrs	(IC-75807) Pushpinder Singh Manhas, Sigs
(IC-75771) Manish Thapa, EME	(IC-75808) Deepan Sudharson G, EME
(IC-75772) Ayush Pathak, Arty	(IC-75810) Vipul Vipin Rakheja, AAD
(IC-75773) Sheras M, Arty	(IC-75811) Rishish Thakur, AOC
(IC-75774) Shrikanth Govind Kumar, Inf	(IC-75812) Sachin Chaudhary, Inf
(IC-75775) K Naveen Reddy, Engrs	(IC-75813) Anupam Porwal, EME
(IC-75776) Jayjeet Kachhwaha, AC	(IC-75814) Vimal Kumar Nair V, Inf
(IC-75777) Gaurav Kumar, AAD	(IC-75815) Bikramjeet Singh, Inf
(IC-75778) Sunny Gandhi, Engrs	(IC-75816) Navtaj Singh Chopra, Arty
(IC-75779) Deepak Dubey, Arty	(IC-75817) Himanshu Yadav, Mech Inf
(IC-75780) Dhanu Kumar Rai, Engrs	(IC-75819) Himanshu Nigam, ASC
(IC-75781) Abhishek Wakhloo, Sigs	(IC-75820) Hari Dutt Pokhriyal, ASC
(IC-75782) Mangrulkar Ameya Chandrakant, Sigs	(IC-75821) Navpreet Singh Sandhu, AAD
(IC-75783) Pramit Kuntal, Inf	(IC-75822) Shivender Singh Ahlawat, AC
(IC-75784) Lomesh Sirohi, Engrs	(IC-75823) Prince Sharma, Arty
(IC-75785) Madhusudan Upadhyay, EME	(IC-75825) Ashish Chaudhary, Inf
(IC-75786) Arjun Chauhan, AC	(IC-75826) Amanbir Singh Sidhu, ASC
(IC-75787) Tanmay Bhardwaj, Inf	(IC-75827) Ankit Gupta, AC
(IC-75788) Ajay Sharma, EME	
(IC-75789) Giresh Kumar Baliyar, Int	
(IC-75790) Simranjit Singh, Mech Inf	
(IC-75791) Arpit Kansal, Arty	

—14 Jun 2011

PRABHAT ROSS  
Dy Dir MS-8C

## ARMY BRANCH

No. 463, dated 12th October 2012—The President is pleased to make the following promotions :—

## REGULAR ARMY

## (ARMY MEDICAL CORPS)

To be Subs Sub Maj (Religious Teacher)

Sub Narendra Nath Tiwari (JC-161067K), 01 Aug 2011

Sub Ram Lal (JC-161068M), 01 Aug 2011

Sub Shiv Nath Tiwari (JC-161069P), 01 Aug 2011

Sub Vyas Prasad Mishra (JC-161071M), 01 Aug 2011

Sub Mithilesh Prasad Mishra (JC-161073X), 01 Aug 2011

Sub Ram Naresh Dixit (JC-161074A), 01 Aug 2011

Sub Maha Prasad Pandey (JC-161106X), 01 Aug 2011

To be Subs Sub Maj [CHEF (H)]

Sub Dawatsnering Lepcha (JC-693360X), 01 Jan 2011

Sub Sudhakaran Kottali (JC-193321Y), 01 Oct 2011

To be Subs Sub Maj (Religious Teacher)

Nb Sub Fanendra Kumar (JC-617337W), 01 May 2010

Nb Sub Madan Pandey (JC-693213P), 01 Feb 2011

Nb Sub Ashish Kumar Mishra (JC-797186H), 01 Feb 2011

Nb Sub Shubhkant Mishra (JC-693212M), 01 Feb 2011

Nb Sub Kameshwar Pathak (JC-693366Y), 01 Aug 2011

Nb Sub Santosh Kumar Pandey (JC-693367F), 01 Aug 2011

Nb Sub Vikas Narayan Mishra (JC-693368K), 01 Aug 2011

Nb Sub Ramakant Tripathi (JC-693369M), 01 Sep 2011

Nb Sub Yatindra Kumar Sharma (JC-693370F), 01 Oct 2011

Nb Sub Ravindra Kumar Pandey (JC-693392A), 01 Feb 2012

Nb Sub Sri Surendra Kumar Tripathi (JC-693393H), 01 Feb 2012

Nb Sub Ghanshyam Misra (JC-693394L), 01 Feb 2012

To be Subs Sub [CHEF (H)]

Nb Sub Ganpat Subrav Dhan Vade (JC-693879N), 01 Jan 2011

Nb Sub Dil Bahadur Thapa (JC-693880H), 01 Jun 2011

Nb Sub Vinay Singh (JC-693881L), 01 Oct 2011

Nb Sub Subodh Kumar Singh (JC-693918F), 01 Nov 2011

Nb Sub Janardan Nathu Patil (JC-694033Y), 01 Jan 2012

Nb Sub Shamser Ali (JC-694034F), 01 Mar 2012

Nb Sub Dharam Raj Prasad (JC-695143A), 01 Apr 2012

AJAY SAXENA  
Under Secy

## AIR BRANCH

No. 464, dated 12th October 2012—The President is pleased to make the following Substantive promotion :—

## INDIAN AIR FORCE

## ACCTS BRANCH

To be Subs Air CMDE (ACCTS BRANCH)

Air CMDE (ACTG) CV Subramanian (14982) ACCTS, 02 Mar 2009

Air CMDE (ACTG) G Mathew (14987) ACCTS, 02 Mar 2009

To be Subs GP Capt

GP Capt VS Giridhar (16875), ACCTS, 03 Nov 2008

GP Capt SM Subhani (16865), ACCTS, 03 Nov 2008

(His name will appear below S Sahai (16873) ACCTS in the Combined Gradation List)

GP Capt NPS Dalmi (16872), ACCTS, 02 Mar 2009

GP Capt DVV Dattu (16879), ACCTS, 27 Jul 2009 (NS-01 May 2009)

GP Capt EPP Nambiar (16886), ACCTS, 01 May 2009

GP Capt PS Babu (17908), ACCTS, 01 Oct 2009

GP Capt RK Khattri (17909), ACCTS, 01 Apr 2010

GP Capt JB Bose (17914), ACCTS, 01 Apr 2010

GP Capt NV Sreenivas (17920), ACCTS, 01 Apr 2010

AK SINGH  
Dy Dir Personnel (Officer)-2B

## ARMY BRANCH

No. 465, dated 15th October 2012—The President is pleased to permit the under mentioned officer to retired from Army Service on attaining the age of superannuation:—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

## Army Medical Corps (Non Tech)

Lt Col Bhagwan Yadav (NTR-16655W), 30 Jun 1955/  
30 Jun 2011(AN)

YASH PANDE  
Brig  
Dy DGAFMS (HR)

## ARMY BRANCH

No. 466, dated 15th October 2012—The President is pleased to make the following promotions:—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

## CORRIGENDA

Lt Col to be Subs Col (By Selection)

For BLANK

Read:—

(IC-43410) Deepak De, Inf, 15 Aug 2006

TK DAS  
Dy Dir MS-8A

## ARMY BRANCH

No. 467, dated 16th October 2012—The President is pleased to make the following appointment for a period of 5 years under AI 75/78 as amended:—

## REGULAR ARMY

## SHORT SERVICE COMMISSION

To be Flt Lt

Flt Lt Ajay Kumar Yadav MS-16360A (AF-30700F) date of Commission 20 Aug 2009

The antedate seniority DGN in r/o above named officer passed on 04 Jan 2011 and published on 25 May 2011 is amended as follows:—

For with seniority for pay and promotion from 19 Feb 2009

Read with seniority for pay and promotion from 20 Feb 2009

YASH PANDE

Brig  
Dy DGAFMS (HR)